



Mrs. Cheryl Watson-Harris, सुपरिंटेंडेंट

Mrs. Vickie B. Turner, बोर्ड अध्यक्ष  
 Mr. Dijon DaCosta, उपाध्यक्ष  
 Mrs. Anna Hill  
 Mr. Marshall D. Orson  
 Mrs. Deirdre Pierce  
 Mrs. Allyson Gevertz  
 Dr. Joyce Morley

तुरंत विज्ञप्ति के लिए

12 जनवरी, 2021

संपर्क:

Portia Kirkland, 678-427-4898

Carla Parker, 404-734-1717

### DeKalb काउंटी स्कूल डिस्ट्रिक्ट फिर से खुलने में देरी

STONE MOUNTAIN, Ga. – DeKalb काउंटी स्कूल डिस्ट्रिक्ट (DCSD) स्कूल फिर से खुलने में देरी है। छात्रों को 19 जनवरी को आमने-सामने बिठाकर निर्देश नहीं दिया जाएगा।

DCSD सुपरिंटेंडेंट Cheryl Watson-Harris और उनकी टीम ने 11 जनवरी को शिक्षा बोर्ड की बैठक के दौरान जिले को फिर से खोलने की योजना पर एक अपडेट प्रस्तुत किया। COVID-19 की भयावहता और स्कूल को शिक्षण कार्यों के लिए बंद होने के परिमाण को देखते हुए सावधानीपूर्वक निर्णय लिए गए।

छात्रों के लिए स्कूल के फिर से खुलने की अधिसूचना अपेक्षित तिथि से दो सप्ताह पहले उनके परिवारों के साथ व्यक्तिगत रूप से साझा की जाएगी। जिला सुरक्षा रणनीतियों और स्कूल की तैयारी के कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करेगा। स्कूल की तैयारी के निरीक्षण का कार्य जारी रहेगा:

- व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण (PPE) और स्वच्छता आपूर्ति
- साफ-सफाई आपूर्ति और प्रक्रियाओं का वितरण
- सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए बैठने की व्यवस्था और उनके बीच की दूरी
- पानी की सुविधा
- पाइपलाइन और HVAC प्रणालियाँ
- COVID-19 स्कूल सुरक्षा संकेत

प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि शिक्षण कार्यों के लिए DCSD स्कूल के सभी कर्मचारी और छात्र सुरक्षित रहें। इसमें COVID-19 के जोखिम के स्तर को और कम करने के लिए रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र की पांच प्रमुख शमन रणनीतियों में निम्नलिखित शामिल होंगे:

- मास्क का निरंतर और सही उपयोग
- जितना अधिक संभव हो सोशल डिस्टेंसिंग
- हाथों की धुलाई
- सफाई और कीटाणु नाशन
- DeKalb स्वास्थ्य बोर्ड के सहयोग से संपर्क अनुरेखण

जिला गुरुवार, 14 जनवरी, 2021 को शाम 6 से 7 बजे तक सुपरिंटेंडेंट Watson-Harris के साथ माता-पिता के लिए एक वर्चुअल टाउन हॉल की मेजबानी करेगा।

स्कूल फिर से खोलने की योजना के बारे में अतिरिक्त जानकारी के लिए, [www.dekalbschoolsga.org/school-reopening](http://www.dekalbschoolsga.org/school-reopening) पर जाएं।